

an>

Title: The Minister of Home Affairs made a statement regarding Issue of alleged destruction of a church in East Delhi due to fire prompting allegation of foul play by Church Authorities.

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी कल के विषय में कुछ कहेंगे।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, जिस समय मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि दिल्ली में एक चर्च के जलने की घटना हुई है। मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस संबंध में बात की और मैंने उनसे कहा कि इस मामले की तुरंत जांच कराई जानी चाहिए। सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि एक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के चेयरमैनशिप में एक एसआईटी बना दी गई है ताकि पूरे मामले की ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके और उसे टाइम बाउंड भी कर दिया है कि ज्यादा लम्बा समय नहीं लगना चाहिए, बल्कि दो महीने के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। मैं सदन को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, there has been ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing else will go on record. Only the Minister's statement will go on record.

(Interruptions) â€¦*

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी धर्म और आस्था में विश्वास रखने वाला कोई भी समुदाय हो, यदि किसी भी व्यक्ति के धर्म और आस्था पर चोट पहुंचाने की कोई कोशिश करेगा, तो हमारी सरकार उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी। यह मैं सदन को आश्चर्य करना चाहता हूँ। एसआईटी पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जांच करेगी और दो महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी। यदि आपका निर्देश होगा कि वह सदन के फ्लोर पर भी रखी जानी चाहिए तो उसे मैं सदन के फ्लोर पर भी रखने को तैयार हूँ। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Shri Innocent.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होती।

â€¦ (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं क्षमा चाहती हूँ। किसी का नोटिस है और न कुछ और है।

â€¦ (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I have already given notice. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

माननीय अध्यक्ष : आपका नाम भी इन्वोसेन्ट है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री इन्वोसेन्ट (वालाकुडी) : स्पीकर मैडम, मैं हिन्दी में बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने बात की तो भी आप समझ नहीं पायीं और न ही मैं समझ पाया, इसलिए मैं मलयालम में बात करूँगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग सुनिये। वे जिस बात को उठा रहे हैं, उससे खुद भी जूझ रहे हैं, इसलिए कृपया आप उनकी भी चिंता कीजिए।

â€¦ (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Innocent Have you give notice to speak in Malayalam? Mr. Innocent, please listen to me. You have not given notice that you desire to speak in Malayalam. Hence, no translation is taking place. Therefore, please give it in writing.

SEVERAL HON. MEMBERS : Madam, it is there.

HON. SPEAKER: Is it available?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Madam.

HON. SPEAKER: If it is available, then it is okay. Please make your submission continue with your submission.